

प्रेस नोट

दिनांक 10.02.2021 को थाना चोलापुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 545/2020 धारा 363/366 भादवि से सम्बन्धित अपहृता को आयुक्त कार्यालय बाऊन्ड्री के सामने सड़क के दक्षिण पटरी पर खड़ी बाईकों के बीच से वादी मुकदमा की पहचान के आधार पर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- थानाध्यक्ष चोलापुर महेश कुमार सिंह, उ0नि0 सुनील कुमार गुप्ता, का0 बृजभूषण यादव व म0का0 अश्विनी द्विवेदी थाना चोलापुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

आज दिनांक 11.02.2021 को थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0039/2021 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त भोला यादव पुत्र पंचम यादव निवासी ग्राम ईशीपुर थाना बडागांव जनपद वाराणसी उम्र 45 वर्ष को फत्तेपुर तिराहे के पास से समय करीब 13.10 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- भोला यादव पुत्र पंचम यादव निवासी ग्राम ईशीपुर थाना बडागांव जनपद वाराणसी उम्र 45 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 अनिल कुमार व उ0नि0 गौरव कुमार सिंह थाना बडागाँव जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

दिनांक 11.02.2021 को थाना आदमपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0021/2021 धारा 147/323/504/506/354/354(क)/354(ख) भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण आकाश प्रजापति पुत्र गोपाल प्रजापति निवासी ए 31/22 नवापुरा बलुआवीर थाना आदमपुर वाराणसी व विक्की प्रजापति पुत्र गोपाल प्रजापति निवासी ए 31/22 नवापुरा बलुआवीर थाना आदमपुर वाराणसी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदमपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1) आकाश प्रजापति पुत्र गोपाल प्रजापति निवासी ए 31/22 नवापुरा बलुआवीर थाना आदमपुर वाराणसी
- 2) विक्की प्रजापति पुत्र गोपाल प्रजापति निवासी ए 31/22 नवापुरा बलुआवीर थाना आदमपुर वाराणसी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 उमेश प्रसाद थाना आदमपुर वाराणसी
2. हे0का0 राजीव कुमार सिंह थाना आदमपुर वाराणसी
3. हे0का0 वीरेन्द्र कुमार यादव थाना आदमपुर वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

*थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा पेटीएम के माध्यम से बैंक खाते से रू0 5,90,389/-
निकालने वाले 02 अभियुक्त अमित कुमार व सूरज विश्वकर्मा गिरफ्तार*

दिनांक 10.02.2021 को श्रीमती सुनीता देवी पत्नी अजय कुमार निवासी- मकान नं. S 25/221 C-9 A रूद्र बिहार कालोनी, महावीर मन्दिर, थाना- कैट, जनपद- वाराणसी द्वारा साइबर क्राइम पुलिस थाना वाराणसी पर सूचना दी गयी कि उसके बैंक खाते से उसकी जानकारी के बिना दिनांक 16/09/2020 से 29/01/2021 के मध्य कई बार में कुल 5,90,389/- रूपये अवैध रूप से साइबर अपराधियों द्वारा निकाले गये। उक्त सूचना पर साइबर क्राइम थाना में मु0अ0सं0-0010/2021 धारा- 406/420 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण अमित कुमार पुत्र शिवनारायण निवासी म.नं. -जे 27/10 जैतपुरा छ: मुहानी थाना – जैतपुरा, जनपद- वाराणसी व सूरज विश्वकर्मा पुत्र उपेन्द्र विश्वकर्मा निवासी म.न. जे 28/10 आगागंज, जैतपुरा, थाना-जैतपुरा, जनपद –वाराणसी का नाम प्रकाश में आया, जिन्हे आज दिनांक 11.02.2020 को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पास से समय लगभग 13.20 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त अमित कुमार ने पूछताछ में बताया कि मेरी शादी अर्दली बाजार महावीर मंदिर के पास अजय कुमार की पुत्री नेहा के साथ हुई है। चूँकि मेरे ससुर के लड़के नहीं हैं, इसलिए शादी के बाद से ही मैं अपने ससुराल में ही रहता हूँ। मेरे ससुर बी.एस.एन.एल. से सेवानिवृत्त हैं और रिटायरमेंट के बाद मिले रूपये मेरी सास सुनीता देवी के इलाहाबाद बैंक के खाते में जमा हैं। यह बात मुझे मालूम थी, अक्सर बैंक से पैसा निकालना होता था तो मैं अपनी सास को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जाता था और कभी-कभी मुझे अकेले भी एटीएम कार्ड देकर भेज देती थी। इस प्रकार बैंक खाता तथा एटीएम कार्ड व पिन की मुझे पूरी जानकारी थी। इसी बीच मौका देखकर मैं एटीएम से पैसा निकालकर खर्च करता रहा। मेरे साथ पकड़ा गया सूरज विश्वकर्मा मेरा मित्र है और इसका खाता यूनियन बैंक आफ इण्डिया, डीएवी कालेज शाखा में है। मैंने यूट्यूब के माध्यम से पेटीएम एकाउंट बनाकर बैंक खाते से उसमें पैसा ट्रांसफर करना सीखकर अपने मित्र सूरज विश्वकर्मा के मोबाइल नंबर से पेटीएम एकाउंट बनाया तथा अपनी सास के खातों से पैसा एटीएम कार्ड के माध्यम से सूरज विश्वकर्मा के खाते में ट्रांसफर करने लगा। हर बार सास का मोबाइल किसी बहाने से लेकर ओटीपी देख लेता था और उसे डिलीट कर देता था जिससे किसी को पता नहीं चलता था। बाद में सूरज विश्वकर्मा के खाते से पैसा निकालकर हम दोनों मिलकर खर्च करते थे और घूमते फिरते थे। अभी तक निकाले गये सारे पैसे हमलोगों ने मिलकर खर्च कर दिये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. अमित कुमार पुत्र शिवनारायण निवासी म.नं. —जे 27/10 जैतपुरा छ:मुहानी थाना जैतपुरा, जनपद- वाराणसी उम्र लगभग 21 वर्ष।
2. सूरज विश्वकर्मा पुत्र उपेन्द्र विश्वकर्मा निवासी म.न. जे 28/10 आगागंज, जैतपुरा, थाना- जैतपुरा, जनपद —वाराणसी उम्र लगभग 22 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- प्रभारी निरीक्षक राहुल शुक्ल, उ.नि. सुनील कुमार यादव, हे.का. श्याम लाल गुप्ता, का. राम अवध यादव, म.का. पुनीता यादव व म.का. सलोनी चौरसिया थाना साइबर क्राइम वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *“मिशन शक्ति”* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 11.02.2021 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 129 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 4437 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 540 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 114 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 1630 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा शोहदों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 शोहदों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही व 59 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गई।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।